



av~~U~~ÁAUÍ z~~Á~~¹ÁAÍ~~Á~~ v~~U~~₂



YAZAZP è .. A^a A



UĒmī PĀ→Ä→Ä iā° è
CAUÅAUÜMÄP è
±ÄRgJUÄiÄAVgÄ a Ä
©½ gÄ ÅA iä oPÄ a Ä ö

10. DPÀÀUÀxÙÀ B

€ Án PÍE Ä½ UÀ½ UÉ
vÙPÄ®ä à gÉÄUÙÄ½ Ä
° ÁUÈ Cä Ä½ ÄÀ x Aí ÄA v

¥ZÆA, A¥ÁZPØA B
qÁ|| J, iJA. 2a) AØPA±A
« ØJUÁ ØZÆØ±PØA

-ÄRPÄB
qÁ. Vj Ä±i, ©. 1.
qÁ. 2a PÄAÄGÜ, JA. 1.
qÁ. FÄgÄAiÄt, ÄkÄ, JZi. r.
qÁ. 2® «.n.



ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ :

« ÚA ZÁÓ±ÉÁ®AiÀ

PIÉÁOI PÁ ¥ÀLA EZQÀAIA, ¥ÀLA OÁUME «HÄEUAÚj PÁ «eÁEUMÀ
«±KZÁ®AIÀ, ©ÁZBÀ- 585 401

9. avk^ag^uéB




PbRiEAvi zA¹AAiA vN₂



C¹A⁻i-zA¹AAiA vK



PÉE PÍg gÉA UÍC A ZÀ w gÄV zÀ PÀ Ä Ü



J̄-i. J̄-i. PÁ-Ä-Ái Ä° è
Ai Äpi vi ÈR è PÁ tå Ä° a PÁ Èlgi



PÉEPIbgÉAUÍC AzÀ dogíZÈPÈ
GAmAVqA^aA qPUAÈA



Æ ÄQÆÀ UÀI ®Ä a ÄVÄÜ
+ Äé ÆA¼A qÆAUZP è + Äé ÆA¼

- ÄRPÄÄVÄUÄÄ

PRÉÄ½UℳAP ēPÄqÄSgÄ A PÄ - Ä - UℳAEÄ gÄEÄUℳA A AE®ZA
DzÄgℳA A Ä - E ' A QÄJ A IℳA UℳAZA SgÄ A A EÄAPÄ gÄEÄUℳA,
A EgÄTÄUℳAZA SgÄ A A EÄAPÄ gÄEÄUℳA, 2° AAZ A AE®
ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಜನ್ಯ ವಿಷಾಳಿಗಳ ರೋಗಗಳು,
KPÄTÄFÄ « A VÄU ¥bÄ A P A © fÄ « UℳAZA PÄqÄSgÄ A
ರೋಗಗಳು, ಮೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ/ವಿಷಮತೆಯಿಂದ ಬರುವ
gÄEÄUℳA A A VÄU ¥bÄ A A D ° UℳAAZ PÄqÄSgÄ A PÄ - Ä - UℳA
JAŞÄZÄV «AUr A ° AZA.

PÁ®PÁ®PÉ ®¹PÉ e£«PÀ ÁGIPUÉ PÍKÉ½ ¥ÁGIAUMAP È
»VIP fÀ ÁPÀ a ÁEÚMAP È a ÁAPÙ dEA a ÁVÄU a ÁO JEÀ ÁZÁQPÉ

® 1 PÉ ñÁqá ÁUÀCEÄ, J, À·ÁPÁZÄ, Á^aÁÆÀ PÈ ÄUÌÄ

FÁN PÉ Æ½UÀ® 1 PÉ PÁA i ÄØPÙÄ

P <small>RE</small> A <small>V</small> U <small>K</small> A <small>TA</small> N (¢ E <small>LA</small> Ág <small>UA</small>)	S <small>Í</small> A <small>NA</small> P <small>Á</small> Z <small>Á</small> ① P <small>E</small>	Á <small>MA</small> E <small>S</small> V <small>ARE</small> «Z <small>Á</small> EA
TEA ¢ EA	¤ T <small>Á</small> G <small>P</small> I g <small>RE</small> ÁUA	Z <small>PA</small> O <small>Z</small> P <small>LA</small> UE EA <small>E</small> P <small>E</small> T
7EA ¢ EA	P <small>RE</small> P <small>IG</small> E g <small>RE</small> ÁUA (J ¥-1/©-1 ¥ E <small>LA</small> Z)	P <small>RE</small> A <small>V</small> A <small>NE</small> VEA ° E <small>VE</small> E a <small>NE</small> ®P <small>A</small>
10-14 EA ¢ EA	U <small>AA</small> Ág <small>RE</small> ÁV S <small>Á</small> O , K <small>E</small> ÁAP <small>A</small>	P <small>RE</small> A <small>V</small> A <small>NE</small> VEA ° E <small>VE</small> E a <small>NE</small> ®P <small>A</small>
3EA ¢ AgI	L, °. ¤ Áv <small>AO</small> P <small>RE</small> P <small>IG</small> E g <small>RE</small> ÁUA (®, K <small>E</small> AM <small>A</small> ¥ E <small>LA</small> Z)	P <small>AR</small> A <small>IM</small> A <small>A</small> ¤ Ag <small>A</small>
4EA ¢ AgI	U <small>AA</small> Ag <small>RE</small> ÁV S <small>Á</small> O , K <small>E</small> ÁAP <small>A</small>	P <small>AR</small> A <small>IM</small> A <small>A</small> ¤ Ag <small>A</small>
6EA ¢ AgI	P <small>RE</small> P <small>IG</small> E g <small>RE</small> ÁUA (®, K <small>E</small> AM <small>A</small> ¥ E <small>LA</small> Z)	P <small>AR</small> A <small>IM</small> A <small>A</small> ¤ Ag <small>A</small>
8EA ¢ AgI	P <small>RE</small> A <small>V</small> 1 q <small>AS</small> A	g <small>PUE</small> EA <small>E</small> P <small>E</small> T
11-12EA ¢ AgI	P <small>RE</small> P <small>IG</small> E g <small>RE</small> ÁUA (®, K <small>E</small> AM <small>A</small> ¥ E <small>LA</small> Z)	P <small>AR</small> A <small>IM</small> A <small>A</small> ¤ Ag <small>A</small>
14-16EA ¢ AgI	P <small>RE</small> A <small>V</small> 1 q <small>AS</small> A	g <small>PUE</small> EA <small>E</small> P <small>E</small> T
18EA ¢ AgI	P <small>RE</small> P <small>IG</small> E g <small>RE</small> ÁUA (P <small>LA</small> UE 1 Z)	Z <small>PA</small> O <small>Z</small> P <small>LA</small> UE EA <small>E</small> P <small>E</small> T

* ఈ పటియు ఒందు లాదావరణయేష్టి: ఆయా ప్రదేశక్కి అనుగుణవాగి లసికి నీడలు స్ఫ్రేయ యొక్క వ్యాపారాలను తెలుగు భాషలో వ్యవహరించాలని ప్రార్థించాలి.

- ÄRPÄÄ

1. ¥Ù ZÀI Ä

„ÁgMÁPÍPÍ ¥ÍZÁEP ÁZÁZÁ±Á ZÁ±ÍZÁ70 ¥ÍW±MÐAVÍPÆ
° ÓZÁN dFgá PÍPÍ DzÁj vA PÁSÁUMÉÄB C aPÁCíPí VÍPÄ
fÍA EÍEÍqé ÁWzÁgé aPíA ÁAÍzÁVÁiA PÍTÍAíA G , PÁSÁUMÁZÁ
پشپاالن، میئمگاریک، رېئېھەلۇ ساکانىك، تېءەتگارىك
اMÁAvÁZPÍ AEAZÁ UÁkÄÄT dFgá DyÓPíAíEÄB PÁ¥ÁqÄäPí e
° ÉÍEí AÍO M PÍEÄB a» ÁWzÉ SzaTÁZÁ aPíA BAIíA° e F
G ¥PÁSÁUMÄF FUí A EÍEí GzAíZAVé ÁWzÉ SgA
CwAíPí ÁWzÉ ÁA PÁqÄ aMÉUJÄA oAíM aAvü JAIíAZÁ
EÍUÍgAíZÁ aMÁAvÁZÁ PÁ , BUNAZÁ EÍgMÁWgá a
gEVÁ ÁAZPí UED bAíAVa E CZgíPÆ ¥ÍLÄYÁ® EÍAíA PÁtPÉ
C ¥Ágá C Eí G ¥PÁSÁUMÄVÉ PÍEÄ½ ÁPÁtPÉ UÄWÜE ¥ÍZMVAiA
a Eígé o EíPí AíA EíGzAíA ÁV SzaTÁVzgé PÁ ¥ÁzÄEíA
PÁ®CAZPÆ ÁWzÉ SzaTÁVé »vP ¥ÍZMVAiA° e ÁWzÉ ÁAíA
شىگلۇ چاڭلىيەلىد. مۇنۇشۇن بىلەكىنچىن ئەنپەيمىشكەۋاد كېسى
لەتىپنىجىلۇنى ھىتەلە كەءەلەنەلەن نىزىد ئەنۋەلەنەن لەتىپنى
ÁgIPEPí J vA ÁA ÁAvü a EímDUMÉÄB ¥ÍqAíMÄS° ÁzAVzÉ
ÁA ÁAíA ÁYÍLÄYÁ® EíUÍ O ÓZÁN ¥ÍegPí ÁVgá a F ¥ÍzW DzAíPÁ
PÍEÄ½ ÁPÁtPUE ° EíA° 1 zgé E1½a J aAvü DyÓPí ÁV
° ÓZÁN ÁAíA Ázgé vEízÁ DzA aÍO M PÍEÄB ¥ÍqíCzÉ
لەتىپنى ئەنۋەلەنەن كەدىمەيلىدۇرۇ ئەنۋەلەنەن ئەنۋەلەنەن
¥ÍzP vP ÁVgá a EíA PÍEÄ½UÄWÜE FUPÆ ° ÉÍEí ÁrPÉ ÁZÉ
ÁVUÍPÆ ÁtU ¥ÍBÍATZPÆ EíA PÍEÄ½ ÁPÁtPÉ ÁgI
C aMUMÉÄB a ÁgÁI a ÁqÄvÁgé

§ 1/4 RÁIÄ «ZÁFEJUKÄ

1) PÀ ÄUC xÀ Á aÄEVÈÀ ØÉ½ÁiÀ aÄE®PÀ xÄqÀ aÅZÀ

® 1 PÉ ॥ Áqipä ॥ O ÉZÄN ॥ PÄAIA ॥ a ÁVÄU PÉ ॥ à »rzgk,
 F «ZÄEÀ FÄ ॥ ÁVÄ gÉÄUÄTÄ «EÀ ® 1 PÉ ॥ Áqipä Cv ÁVÄ
 ¥lÄ ॥ PÁZÄ. ® 1 PÄiÄEÄB zÄÄt zÍEACUÉ «Ä±Ät a Árza
 nönter nájúkañi alügañis bëeñ. ñondu bïnduñivñ
 ® 1 PÄiÄEÄB o ÁQZÄ EÄVgä CzÄ »Agipä ॥ à gýUÉ PÍEÄ½UÍEÄB
 »rz ÄPÉ Argä ÁPÄ. J - Áe PÍEÄ½UÍUÉ ® 1 PÉ a Árza EÄVgä
 G½zÄ ® 1 PÄ zÄÄt a ÍEÄB (Ma ñä «Ä±Ät UÍEÄqízÄ) , ÍEÄAPÄ
 o ÁgPUMÄEÄB S½ñ EÄ±Ät à ÁPÄ.

2) ۱A¥r, ãaÀ«zÁfÁ

F^āAVĀ g^īK^ēUÁT^ā «F^ā P^āI^ēE^ā 1 A^Y » , ^āA «Z^āE^āCAZ^ā
 ḷ^āq^īS^ō AZ^ā. ^āP^āI^ēE^ā «A[±] » ^āq^īP^ā ^āh^ōE¹ Z^ā ḷ^āG^ēE^ā
 S¹A^ā A^ā P^ā. G^YA^āI^ēAUP^ē V^āP^āAV^ē ^ā A^ā, P^āAZ^ā ^ā P^ā 10000
 ଦିନ୍ଦ 15000 କୋଣ୍ଡାଗଳିଗେ ଅଧିକତାପରିମାଣମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲୁଗୁପ୍ତ.
 V^īg^īZ^ā P^āE^āO^āR^ā A^ā , A^āP^āT^ā P^ā «Z^āE^āD^āAV^ā D^ā ^ā P^ā A^ā A^ā Aw^ā A^ā
 Y^ā A^ā A^ā O^āU^ā ^ā P^ā E^ā ^ā P^ā A^ā U^ā P^ā AV^ā S¹A^ā S^ō AZ^ā.

CEÄ¥AIAÄPÑ GvÆBUÄEÄB wAZÄ EÞÄUE GvÞÄ
„ÄgäDEPPÆACZÄ aÄAA, PÆÄB MAZÄ ÄVÞÉ EzgÄvÄiÄÄ
aÆmÄÄ° e GvÞÄ „ÄgäDEPZÄ aÆ®kzÄY «I «Æi-1
ବିନ୍ଦମୁ ହୋରତୁପଦିସି ଲୁହିଦ ଏଲ୍ଲ ମୋଷକାଂଶଗଲୁ ଦୋରେଯୁବ
ସଂମୋଳ ଆହାରଚାଗିଦେ. ନାଟି କୋଣିଗଳମୁ ସାକଲୁ ଏତେଷ୍ଠ
„ÄPiglUÄ, zÄ Áj aÆE aÄvÄUD° ÄgäZÄC aÆPMÉ EgÄaÄC®
zÄ Áj AiiÄzÄDzÄ PÄPÆÄ½ aÆUMÆÄB vglÄiÄ®Ä „ÄZÄk®PZÄ
¤gÄZÆAV AiÄÄ PÄAiÄÄ wAiÄgÄ FÄn PÆÄ½ „ÄPÄtPÄiÄÄB
MAZÄ GvÞÄ DzÄiÄ vglÄS®e „ÄGzÆÄUPEÄB
C1PÄr1PÆÄ½S° ÄzÄzÄVzÄ

Ezgáleievű égagév Áazágá Ázaj vā »vip
Péán½ vñukázà Vj gAd a Ávñ òt ðzágá vñukáéab
Ápis Ázavzé E a fR ágádizR e COp ÁcP ¥R Ázà
««ZÉAZÁ±zavñ. F vñk Áazá GvP Áuatañ òzañáá, a
a Ávñ vñukáéab ¥qáiaS Ázä. zé»Píp ÁV Uñhö a Áamánzñ
CcpA ¥R gEzP ±ðó o ÁeAcgá Á F ¥R Ázä Aia Ázä
¥R Á±pauP Á, o p Áa ÁaepauP Á o ÁeAcPéyamzé E a Áuméab
a Áeaiá »vip fR e SAI Áo fR e Ápis Ázavzé F vñkaia
Péán½umá JAI Á ÁgñkáP e 1600 j Azá 1800 UÁ. záo Á
vñepa ¥qáiaávP e C®zé 280 Cenka Ca Ácaia e Áa Áagá
130-150 vñukáéab ÁqavP e

E FÄB FÄN PÄE½UÑA ÁPÁT PÄIÄ SUÉ °Ä½A · ÁPÁZGÄ
 a ÄEÄIÄ ° gä a a A I Ä gä a ÄPÄ½A a Ä » ¼A I Ägä » ÄUÉ A I Ägä
 .. ÁPÁZGÄ E a ÄU½EÄB FÄEÄr PÄE½S ° ÄZÄ ° ÄIÄA a ÄVÄ a FÖ
 a Ä , Ä A C a ÄPÄ½A i ÄE Egä a ÄC ® e a ÄE Ä PÄEnÜF VÄEÄI ZP è
 ॥ತ್ವತ್ತಿಯಾಗುವ ಶ್ರವಣಗಳು, ಹುಳಿ, ಹುಟ್ಟಿವನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ
 vÄE Ä FÄN PÄE½UÑA .. NAIÄS ® Ä CAU Ä UÉ ° ÄEÄUÄZÄ I ÄA

2. FÁN PÍEÃ½UÌÀ, ÁPÁt Æ

£Án PÉÄ½ „PÁT PÁIÄÄ UÁ&ÄÄt ¥ÅÄ¥Ä®£ÄIÄ
C« „Ádá CAUÀ ÁVZÄY oPä ÁgÄ G¥ÄIÄPÄVÄIÄEÄB oPÄACZÉ
Ca NÜMÄZdÉ

- * Sqā gēvj UÉ ° ÉZĀIÀ DzÁAIÀ ÈAB vÀZAPKEqAVLÉ
* PRAI SAqP ÁVÀ a ÁVÅU PRAI RZAÖ
* 2PÄT a ÄI ÖPRAI ÄEZPÄGÉ , PÁ , APATPE a ÁAQS ° AZÄ.
* , HAAIÀ a ÁVÁA) gATPE ° KEACPÉ ¼AMPÉ a ÁVÅU ° ÉZÄngEÄUÀ
* ¥AgÉÄZPÄVÄIÈAB ° KEACPÉ
* a ÁTlÄI , APATPE ° KEÄ ° 1 ZgÉ xgAPÄ±Ä «ZÄFÄ (! Ä
* gÄAEI «ZÄFÄ) ZP è , Ä® . PÄV , APIS ° AZÄ.
* a ÁAA , à a ÁVÅU a ÁEmDÜKUÉ ° hÄIA .. ArPé EgÄa Äzj AzÄ
* ° ÉZÄN ° ÉE a ÁVÅU - ÄA
* ¥AgÄA ¥Äj PRÄV UÄÄÄt dFj UÉ fÄn PÄEÄ½
* , APATPE ° è EgÄa Ä eÄFÄ a ÁVÅU CÉÄ . PÄ
* EWÄfÄI ÇEÄMP è a ÁTlÄPÄV , APÄPQÄA Ä .. ÁAiÄEgi
* a ÁVÅU - ÄAÄiÄgÄI PÄEÄ½ , APATPE ° è DVgÄA Ä QÄE ¥DñVAIÄ
* ° EGÄMÄVAIÄE » VlP ° è , APÄPQÄA Ä PÄEÄ½ , APATPE
* DyÖPÄV UÄt xÄAÄIÄ , ÄIEÄZP è 2013 fÄ E , ÄKAÄ ° è FÄqÉZÄ
* ¥ÄÄUÄt wÄIÄ ¥BÄgÄ » VlP ° è , APÄPQÄA Ä PÄEÄ½ UMAZÄ a ÁEmØ
* GvÄZÄFÄIÄ , ZÄ+ÄZÄ MI ÄÖ PÄEÄ½ a ÁEmØ GvÄZÄFÄIÄ ° è 17%
* (10.1 ° ÄiÄEi) DVgÄVlZÉ PÄEÄ½ a ÁAA , ÄZÄ GvÄZÄFÄIÄ ° è
* sÄkÄ nÄÄfÄkÄ 14LgÄLÄd 0.28 mÄlÄyÄn ÄnÄnÄmÄ ÄnÄrÄtÄd
* (MI ÄÖ PÄEÄ½ a ÁAA , ÄZÄ GvÄZÄFÄE : 4.13 «Ä° ÄiÄEi | fii).

○ gÁit zÀ PÍEÖ-TÍEP gÁ Á gÁ ¥ÄÄ v½ , Á¥ÉÉÅ®
SÆgÍÉÄ , kÄÄPÁIA ¥BÁGÀ ZÄ±LZP è 15 UägÄVÀ ○ àLZI FÁN
PÍEÄ½ v½U½æ C a ÆUKÅZgÉ CAPÍ Ä±gÀ C1Ä-í, S , Åe

¥¹ MATZR ḡa l̄zj AZA ¥¹ APUE M¹/M¹, a A P¹E¹½ D^o Ág¹
 ମୁଶ୍ରଣବନ୍ଦୁ ସୂକ୍ଷମାଗି ମୁଖୁ ଅତୀଏ ଜାଗରାକତେଯିଠିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
 «ZAE¹l¹ A DAII¹ a Ág¹ AP¹.

ಇತರೇ ಶಿಲ್ಪಾಂದ್ರ ಜನ್ಮ ವಿಷಕಾರಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳು :

F a E A E w h z A C w A Y E A R a M E g A g E A U N M P Z A,
 ବହଳ ଏରଙ୍ଗିବାଦ ହାଗୁ ଅଛେନୁ ପ୍ରାମୟିକ୍ତିଲ୍ଲଦ ଜତର
 g E A U N M A Z b E 1 n f E i, a C E A j E i, a E o Y A < A O E i,
 Y A a E A o 1 E i, f B g E - E E A E i U M A Z A G A m A U n a a E P E A M A Q E i
 S A - A - U M A.

a ïPÍEAmÁQÉi gÍEÄUzÀaQvÉ

1. ඩිජ්‍යාලිංගු සේවක සේවක පෙරේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලිත යුතු වේ.
 2. ඩෝ අගිල් එස්ට්‍රොඩ් සේවක ප්‍රතිඵලිත යුතු වේ.
 3. ඩෝ අංග්‍රීස් සේවක ප්‍රතිඵලිත යුතු වේ.
 4. ඩෝ අංග්‍රීස් සේවක ප්‍රතිඵලිත යුතු වේ.
 5. ඩෝ අංග්‍රීස් සේවක ප්‍රතිඵලිත යුතු වේ.
 6. ඩෝ අංග්‍රීස් සේවක ප්‍රතිඵලිත යුතු වේ.

PREÁVUMA DO ÁgA ZAEUMARE a PEPÍEAMÁQEI CA±UMA
PAO, Aa HAEUA VPIAqÄSgÄa ÅzJ AZA , PA YDPA
DO MUHAAZA a HAVF qÍEAUREAB vUUI S° AZA.

GvPÄ vA-Ä PÄEÄ½AiÄÄ vIËB a Äj UMKUÉ a ÄÄ° PÄgÄ
PÄÄAiÄ«®zÉ gPÄLÉ xÄqÄVzÉ FÄn PÄEÄ½UMKÄB »ViP
¥zÄwAiÄ° è, ÄPÄ a AÜA o ÄzÄ VqÄuA a ÄÄAUÄ1, o Äa Ä a ÄÄAvÄzÄ
ÄmÉ ¥Ät ÄUMÄ JwÜMAiÄÄ a ÄzÄvÉ EgÄvzÉ EAvPÄD ¥ÄwÄzÄ
PÄEÄ½UMKÄB a ÄÄRä ÄV a Äj UMKÄB a ÄvÄuÄ ÄemÄMÄB gÄdÄ, Ä ÄPÄ.
AiÄÄai ÄzÄPÄ a Äj UMKÄ MAZgÄqÄ a ÄgÄ PÄÄAiÄÄ a ÄgÄ C a ÄÄUÄB
o ÄegÄü ©qÄzÄ EgÄ a ÄzÄ MÄÄiÄzÄ.

PRA A YDI NYG gEVG A EWA ZUE FAN PREA ½ UM ¼ EAB
ZE QI YE MAT ZP e , APA A YA IA VU ME AB a AQ A WZ A GE o EA A

F ḡEĀUŁA a ĀVĒIAZÄ ¥P NÄR ®PÅt a ÁZjé MÅÅ
ḡEĀUPĘ VÄVÄŁA PÅEÅ½UÅ , A¥NEt Øa ÁV ZÄVj ¹PÅEÅ½ AgPÅ
a ÅÅ - E w½ ¹ZÄ ¥J uÅa ÅUÅAzÄ DyÖPÅ ÁV PÅEÅ½ , APÅt PÅiÅ
nÇÇwÅnÅ Änubhvi sÇeÅkaÅtuÅd.

D). MPÁMÁQPÆÄ¹

ಒಕ್ಕಣಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಜನ್ಯ ವಿಷಕಾರಕದಿಂದ
ಲಂಟಾಗುವ ಅಪ್ಪೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಆದರೆ ಅತಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ
ḡEĀUPE¹ zF F ḡEĀUzA wā^a h̄A iā^a h̄A° fA ḡEĀUPE
° h̄A° 1 zge^a h̄AgA ¥A ÄO° ZÁvñgñvñzF ḡEĀUCAzA^a h̄Evñ
P̄EĀ±ññA^a h̄A-é fAgA ¥h̄A^a P̄ AmÁvñzE

ଏହେବାଳି କୋ ଆ ଏବିଲ୍ ଓଗା ଜାଫୁମାର ଏପାର୍ ଶଗାର
ଛକୁଟାକୀନ୍ ଏଷକାରକଷ୍ଵ ଏପରିତବାଦ ଲାଙ୍ଘାଂଶ ମନ୍ତ୍ର
ବାହା ଆଲକାଗାର ଏକ୍ କୁ ଓ ଇଣ୍ ଯେ ମାତ୍ର ଏ ଗ୍ରାଜେଇମାନିଲେ
ଏହାର ଅତ୍ର ଏ କେତ୍ରାଳିବାର ପରେଇଲାର ଏ ଏହାର
ମେବିଲେକ୍ସାଲାର କୁ ଯେଥିପା ପାଇନ୍ଦ ଏହାର ଲାଇନ୍ଗାର ଏ
ମାର କାଲିମାର ଆ ଉପାଗିତ ଆଲାଵିଲେ ଜାବି ପରେଇଲାର ଏହାର
ଏହାର ଅତ୍ର ପାପିର ଆବ, ଏବିଲ୍ ଗ୍ରାଜୁନିଲୁଏ ଏହାର ଆବ
ବାଲାଉଟା ଆଗାର ଏକ୍ ଏହାର ଏହାର ଏହାର ଏହାର ଏହାର
ଏହାର ଏହାର ଏହାର ଏହାର ଏହାର ଏହାର ଏହାର ଏହାର

gÉÄUÀ ¥ÌÙ:

- * ..ÁCvPÍEÁ½Uℳℳ Ád a ÁVgAℳℳ E a Ávℳℳ dð ° ÁPjat Pℳℳ M½Uℳℳ ÁVgAℳℳ E
 - * CwAℳℳ Áℳℳ a Ævℳℳ « , blðEE
 - * F a ÁA ° E A o ÓUℳℳ E B v ÚE ÁY ðr 1 a Ágat Á, Ávℳℳ E
 - * Z Ávℳℳ 1 PÍEAGA ℳ PÍEÁ½Uℳℳ P è Evjé a ÁPÍE m ÁOPÍE Á 1 , i g ÚE A Uz P q A à g ÚE A U A ® P A t Uℳℳ P Aq A S q A ℳℳ E

C) gRØEÀFÈÀgÆÄUÀ

gÉAUA PÁgRÀ: J²J Á²A iñÁ PÉA - É

O ÁgÀÁ«PÉ: PÀPÀQVÀ ÑÁgÀ a ÁvÑÙ Dº ÁgÀ

**ḡEĀUÀ a° ÚJÀM ®PÀT UJMÀ : ḡPÈÀdÄ, I v̄H E PÀAUJMÀ H v̄A
°IzÀiÀzÀ aBÄ ®zḡzÀ H v̄I a Áv̄U YÉḡé I k̄A I MÀ a zÀ, a K̄emJMÀ è
A iK̄éAPiFÀ , K̄éAAPÀ, GzḡzP è , K̄éAAPÀ a Áv̄U o ÁmJMÀ è
dF̄EÀAUÀ , ÁSACÜ v̄K̄EAZḡJMÀ.**

D) YÄ-ÆÄgÀ gÆÄUÀ:

gÉÃUÀ PÁgÌRÀ : Á - ÉÃEE Áè ¥À - ÉÃgÀ

○ **ગુજરાતી પ્રાચીન લિપિ**: પ્રાચીન ગુજરાતી લિપિ, જે આજેના ગુજરાતી લિપિની માત્રામાં વિભિન્નતા રહેશે. એ લિપિની સ્વરૂપી અક્ષરોની ગાળાની રીતે હશે.

g̊l̊éāuà a° b̊uññá / ®p̊t̊ uññá: p̊éé½² åj uññáp̊ è ②½/w½° n̊ññá
 ..ññáç, G¹g̊áq̊íp̊ä v̊ééaz̊éé üññáññáññáp̊ ädä, , ååñ

E) PÉAÑUÀMÉÁAÍIØ:

gÉUÀ PÁgIRÀ : Á - gÉEÈRÈ UÀº EÃgIRÀ

**○AgjākkPé: P^äÄPvÀ xAgjÀ, D^o AgjÀ ¥P vÀ a ÆmÙkÀ a Æ®PÀ
f^äa Äð®PÀ ¥AgjÀ o ÁzjÀ UÙkAzÀ**

géāUá a^o Uá/ [®]Pé Uá: [•] Uái UáwUáa á UávUá a Uái á, á
Pé Uá½ Uá½ Pé [©]½/w½[°] Uác [•] Uác, [•] Uál E [•]PáAUá Páa Uáe
á Uát [•]Pé UágUáa UázUá.

F) PÉÃ½UÀ PÉgfeÁ :

gÉÃUÀ PÁG.RÀ: »^a GÉÃ | P^o, I YÁGÁUÁ° EÄG.RÀ

○ **Agá«PÉ:** PRAÁPVÀ ÁGA, DO ÁGA G1gAÍ (UÁ½) ZA AE®PA
PREÁ½UKÀ YÀDA DA AYPOCAZA

gREAUA ao ðUMA/ @PET UMA : G1gÁI zÀ vÍEAZgÉ
aæEUo ðéUMAZà ðáJ EáVÀ Zé ÁZà , ðéÁJ Pé vÀ É
HçPéUMA ÁZà, aémbø GváZéE Pá AáUá ÁZà.

ZÁEUMR è CqPR ÁVgÄVPE C'aUMR è ENEgAg «ZÜKZÄY
 2° AAZUMA «ZÄ C'aUMA ° KAIAMAA ÁvAA lgAt a ÁvÄUD° ÁgA
 ðaññd gúømøtøvññ ñøðrøsø vøkørøkøgølø tøtøtøtøtø
 ØZÄDgP ÁUÄVLE ° ÁUÄ AaMÄEP ÁV a ñEmØ GvÄC AaA
 PÆÄVUAVAVÄ a AaA, PÄV ° VÄE ÁUAA A AAIgI PÆÄVUAVÄ
 F gÆÄUPé wÄAPÉ ÁV vÄVÁUAVPÉ

ಶಿಲೀಂದ್ರಜನ್ಯ ವಿಷಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು

- * PÆÄVUAVÄ ° VÄPÄt ÄE PÄApvUVEAqA, ZÄO ÄZÄ vÄEPÄ
 ° ZÄÄUgA ÄZÄ.
- * a ñEmØ GvÄZEE E½A MÄR a ÁUAA ÄZÄ a ÁvÄU a ÄA° EAA ¥AA
 MqÄIÄA ÄZÄ.
- * gÆÄUgÆÄZPÄ ±DÜ PÄAC, , ÆÄAQEA PÄ-A- UÄUÉ
 vÄVÄUAA ÄZÄ.
- * PÄPÄ a ÁvÄU gPÜMR è ±DÜ GAmÄUAA ÄZÄ.
- * ¥E MÄR CAUÄAUUMA a E¥PÄvE GAmÄV a ÄgIt
 A A A ÄZÄ.
- * ÇÄWDPÄ®zÄ gPÄÄEMÉ ° ÄC, ZPÄÖZÄ , ÆÄAPÄ a ÁvÄU
 PÆQIEA vÄEZgUÄ PÄTÄ PÆÄVÄPÄ.
- * -EAVPÄ gA DÜ GAmÄUAA ÄZÄ, , A A EDEA , A A xD
 PÄUÄÄÄÄ ÄZÄ, a ñEmUÄÄ ¥P ÄPÄMÜE½E PÆÄVÄ Äj UÄÄ GvÄZEE
 PÄtÄ HAIÄUAA ÄZÄ.
- * ಕೋಣ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂದ್ರಜನ್ಯ ವಿಷಗಳು
 G½ZÄ , PÄÄZAAIA DgÆÄUÄÄ A A - E ¥J uÄA A ©AgAA
 ÄZÄ
- * a ÄPÆÄMÄQEI ¥J uÄA A eÆvÄA ° E gAA A EvlgE
 eÄAA ÄgÄUÄUÄ GAmÄUÄ ° ÄZÄ.
- * ° ÄA A Igi PÆÄVUÄP è , J A A AV vÄEPÄ ° ZÄÄUZÉ

gÆÄUAA ° UÄÄ / ®PÄtUÄ : PÄApvP ÁUÄA GvÄZEE ° ÄC,
 MgññZÄ gPÜMÄ, « «ZÄ M½ÄAUUMA Gj AïMÆvA

K) PÆÄVÄZPÄÖZÄJ AïMÆvA (¤Ä° gPÆÄU)

gÆÄUÄ PÄgPÄ : PÄe AïA, , ØYF-KEÄPÄPÄEÄ i, J2j Ä2AïA
 PÆÄ -

ØJÄ«PÉ : PÄPÄPÄvA ¥J , gÆÄZÄ ZPÄÖZÄ UAAiÄZÄ a AÆ®PÄ
 M½ÄPÄ Ä±Ä

gÆÄUAA ° UÄÄ / ®PÄtUÄ : gPÜMR è gPÄ ÄA A a ÁvÄU ° UÄ ÄkPÉ

L) ÇÄWÄO a ÄCü±Äé PÆÄ±ÄgÆÄU (1. Dgi.r PÄ-A-)

gÆÄUÄPÄgPÄ : a ÄPÄÄ ¥Äe Ää

ØJÄ«PÉ : PÄPÄPÄvA UÄ½, EFA ÄD®vPÄ¥ÄqÄZÄ a ñEmØ a ÁvÄU
 ° ÄZÄ J UÄZÄ

gÆÄUAA ° UÄÄ / ®PÄtUÄ : PÄ ÄÄ 1ÄEÄ, PÆgiPÆgi JA§
 ±IS, ±Ä, PÆÄ±Ä a ÁvÄU UÄ½

aÄ®UÄP è ° MÄC ZÄÄ QÄ®ÄUÄP è , ÆÄAPÄ

aQvE a ÁvÄUÄPÄ

ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ
 ¥Ive«PÜKÄEÄB (C'aMÄQ1° Ei, DA | 1° Ei, JEÄÄ¥ÄPÄ1° Ei,
 1¥IÄÄ¥ÄPÄ1° Ei, mÄ ÄnEi, DgÆÄA Ä1 Ei a ÁvÄU mE ÄE Ä1 Ei
 EvÄC) , ¥ÄÄ ÄzgkvldgÄ , PØ ÄiA a ÄÄgUÉ S½Ä ÄA ÄZÄ,
 ° ÄC a ÁvÄU ZÄO ÄZÄ ±DÜE ° ÄC ±A ÄgPÄ «I «ÄEiUÄA
 ಲವಣಾಂಶಗಳ ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು, ರೋಗಿನ್ನ ಕೋಣಗಳನ್ನು
 DgÆÄUÄPÄvA PÆÄVUÄZÄ ° ÄYDr, ÄA ÄZÄ, , M PÆÄVUÄEÄB
 2ÄWÄPÄV , ÄEPÄ j ÄwAiÄ° è EØZP è ° ÄE½Ä A E®PÄ ° ÄQ
 ° ÄQ , ÄI ÄO « - ÄA Äj a ÄÄqÄ ÄZÄ. PÄiÄgÆÄUPÄ aQvE ±ÄqÄ ÄZÄ
 DyØPÄV , ¥P ¥ÄP PÄPÄ ÄZÄ AzÄ PÄiÄgÆÄUPÄ vÄVÄZÄ
 PÆÄVUÄEÄB ° ÄegP ÄPÄ ÄZÄ fÄ±PÄÄr « - ÄA Äj a ÄÄqÄ ÄZÄ.

2° AAZ^l M^l E^l Z^l g^l E^l U^l M^l E^l F^l g^l P^l ÁV 2° AAZ^l C^l A^l Z^l
 काण्ठसुव रौगगेलु मतु शिलींद्रगेलु लातादिसुव विषगेल
 a M^l E^l P^l Sg^l a Ag^l E^l U^l M^l E^l Z^l «AU^l, IS^l AZ^l. D^l f^l E^l A^l, i^l
 (2° AAZ^l a M^l E^l Z^l a Aj U^l M^l ± Áe, P^l E^l ± l^l G^l J Ai^l E^l V^l), C^l E^l A^l V^l
 a Á^l R^l Z^l G^l J Ai^l E^l V^l (P^l Á^l i^l a P^l E^l A^l, i^l, x^l), a Á^l V^l Y^l a Á^l i^l
 (©½ v^l g^l A^l → Á^l) a Á^l R^l Z^l 2° AAZ^l M^l E^l Z^l g^l E^l U^l M^l E^l.
 2° AAZ^l M^l G^l V^l u^l A^l Q^l a C^l Y^l m^l A^l Q^l E^l, C^l P^l g^l E^l A^l M^l Q^l E^l, 1 n^l f^l
 नंतक विषवसुगेलु यक्षता, करलु, मतु मुत्रपिंडगेल
 a Á^l - e^l a Á^l w^l P^l Y^l u^l A^l G^l J Á^l Q^l V^l P^l E^l a^l, AZ^l D^l Z^l e^l
 F^l Y^l u^l A^l M^l U^l M^l A^l Z^l P^l A^l E^l g^l i^l U^l q^l U^l M^l A^l V^l, P^l A^l
 परिवर्तनेयगेलहुदु. इवुगेलनु शिलींद्रजन्य विषगेलु
 (a P^l E^l A^l M^l Q^l E^l) CrA^l i^l «a^l, f^l Á^l V^l Z^l

2° AAZ^l M^l E^l Z^l g^l E^l U^l M^l E^l

C) D^l f^l E^l A^l, i^l (2° AAZ^l a M^l E^l Z^l a Aj U^l M^l ± Áe, P^l E^l ± l^l G^l J Ai^l E^l V^l):

g^l E^l U^l M^l E^l: D^l f^l e^l i^l U^l M^l | E^l 2° AAZ^l M^l

o Á^l q^l «P^l : G^l g^l A^l Z^l a M^l E^l P^l g^l U^l M^l (2° AAZ^l M^l
 g^l P^l u^l A^l P^l U^l M^l) M^l M^l P^l A^l, a Á^l j^l AZ^l

g^l E^l U^l a^l o^l U^l M^l / ® P^l t U^l M^l: G^l g^l A^l Z^l v^l E^l A^l Z^l e^l Á^l - Á^l - AAZ^l
 G^l g^l A^l Z^l, a±l^l Q^l A^l a^l | k^l at u^l P^l A^l U^l g^l A^l, a Á^l Z^l,
 ©½ C^l P^l A^l o^l M^l S^l t U^l M^l ± Áe, P^l E^l ± l^l P^l e^l U^l E^l Z^l, Á^l v^l e^l
 U^l A^l a^l, ± Áe, P^l E^l ± l^l P^l A^l M^l P^l e^l ± Áe, E^l A^l a^l Á^l Z^l E^l P^l e^l
 o M^l «A^l z^l o^l g^l G^l J Ai^l E^l V^l a^l n^l P^l A^l g^l S^l g^l a^l AZ^l.

D) C^l E^l A^l a^l Z^l G^l J Ai^l E^l V^l (P^l Á^l i^l a P^l E^l A^l, i^l, x^l):

g^l E^l U^l M^l E^l: P^l g^l E^l A^l C^l P^l E^l n^l 2° AAZ^l M^l

o Á^l q^l «P^l : K^l E^l A^l Q^l E^l M^l J^l Z^l G^l J V^l M^l A^l Z^l | o^l E^l A^l P^l U^l M^l E^l B^l E^l A^l
 K^l E^l A^l T^l Z^l e^l Y^l v^l e^l «P^l g^l E^l B^l E^l C^l A^l a^l g^l U^l S^l g^l a^l AZ^l AZ^l

D) Sg^l Á^l U^l y A^l a^l K^l E^l A^l P^l g^l E^l U^l A^l (U^l A^l Ág^l E/L.C.r) :

g^l E^l U^l A^l P^l g^l P^l a^l g^l Á^l a^l f^l g^l A^l t^l

o Á^l q^l «P^l : P^l P^l Á^l V^l A^l D^l Á^l g^l A^l a^l Á^l V^l a^l g^l Á^l

g^l E^l U^l a^l o^l U^l M^l / ® P^l t U^l M^l: U^l Z^l Z^l Á^l U^l P^l g^l E^l V^l A^l Z^l,
 a Á^l f^l A^l V^l Á^l C^l, Á^l A^l M^l P^l g^l P^l Á^l g^l S^l g^l U^l A^l H^l C^l P^l E^l V^l A^l Z^l
 a Á^l V^l Á^l A^l

E) P^l E^l A^l d^l (K«A^l Á^l E^l Y^l E^l P^l E^l d^l) :

g^l E^l U^l A^l P^l g^l P^l: E^l Á^l V^l A^l e^l Á^l a^l f^l g^l A^l t^l

o Á^l q^l «P^l : E^l Á^l g^l A^l a^l Á^l V^l A^l U^l Á^l - AAZ^l

g^l E^l U^l a^l o^l U^l M^l / ® P^l t U^l M^l: C^l g^l E^l U^l A^l P^l g^l P^l «Z^l G^l g^l A^l
 Á^l S^l A^l C^l V^l E^l A^l Z^l g^l G^l V^l E^l A^l i^l ° P^l A^l p^l V^l A^l U^l a^l Z^l w^l a^l g^l E^l U^l A^l
 «Z^l C^l Á^l P^l A^l i^l ° e^l C^l w^l ° É^l Á^l P^l E^l V^l U^l A^l , Á^l A^l

F) P^l E^l A^l d^l (K«A^l Á^l E^l Y^l E^l) :

g^l E^l U^l A^l P^l g^l P^l: E^l Á^l V^l A^l e^l Á^l a^l f^l g^l A^l t^l

o Á^l q^l «P^l : E^l Á^l g^l A^l a^l Á^l V^l A^l U^l Á^l - AAZ^l

g^l E^l U^l a^l o^l U^l M^l / ® P^l t U^l M^l: C^l g^l E^l U^l A^l P^l g^l P^l «Z^l G^l g^l A^l
 Á^l S^l A^l C^l V^l E^l A^l Z^l g^l G^l V^l E^l A^l i^l ° P^l A^l p^l V^l A^l U^l a^l Z^l w^l a^l g^l E^l U^l A^l
 «Z^l C^l Á^l P^l A^l i^l ° e^l C^l w^l ° É^l Á^l P^l E^l V^l U^l A^l , Á^l A^l

G) K^l E^l A^l Q^l E^l ± Áe, E^l k^l P^l g^l E^l U^l A^l (L.C) :

g^l E^l U^l A^l P^l g^l P^l: P^l g^l E^l A^l a^l f^l g^l A^l t^l

o Á^l q^l «P^l : U^l Á^l - AAZ^l (G^l g^l A^l Z^l)

g^l E^l U^l a^l o^l U^l M^l / ® P^l t U^l M^l: G^l g^l A^l Á^l S^l A^l C^l V^l E^l A^l Z^l g^l A^l
 a Á^l E^l V^l A^l Q^l Z^l V^l E^l A^l a^l f^l g^l E^l A^l P^l U^l M^l E^l B^l E^l A^l
 «P^l g^l U^l A^l Q^l A^l Á^l E^l M^l U^l M^l, Á^l A^l

H) K^l E^l A^l Q^l U^l A^l ® Á^l V^l Á^l Á^l E^l A^l g^l E^l U^l A^l (L.J - i.n) :

g^l E^l U^l A^l P^l g^l P^l: o Á^l Ó^l i^l a^l f^l g^l A^l t^l

gŁĘAUA PŁĄKA: LŁAAJ AŁIAA UŁAA ; EŁA KPŁATŁA
OŁĄKA «PŁE: KPŁATŁA «EŁA aŁEŁMŁUŁA aŁAA AŁ , MŁAA IŁA aŁA EŁ®PŁA
» PŁIA IŁEŁAS ° I Ł EŁA aŁA EŁ®PŁA WŁAA AŁZJ AŁZA ° EŁMŁ , AŁGŁA AŁZA

**ḡEĀUÀ a° ūMÀ / ®PÀT UMA : PḡA½EÀ ÁCÜ, AÀ PÀ-Ä-TÉ
QÀT MÀ °V4P AT ÄJÉ » PÀiÀ° è gPÌ gPÌ ÄEMÉ aÀAPAUÀAÀZÄ,
UJ UMÀ E½©Ä½AÀZÄ, PÀT UÀ aÀAÑAÀAÀ wEÀZÄ aÀE-ÄIÀ° è
PÀ½VÄPÆ½AÀZÄ, o dō °ÄPgât PḡA½EÀ è , ÆÄAPÀ aÀVÑU
CÇPÀ , ASÄIÀ° è , ÁAÀ , MÌPÆ½UMÀP è gEÄUPÄgPÌZÀ « ZUMÀ
CEÄUÄT aÀV PḡA½EÀ «« ZÀ °ÄUUMÀ H ÇPÆAqÀ gPÌCAZÀ
PÆrgÄvP È**

aQvF[†] AññAaiññAvE : M½gjA^a PA© fA<UMA ÁzAiiññAzAúA
 ପଶୁମୈଦ୍ୟର ସଲହେଯ ମେରେଗେ ଜଂତୁନାଶକ ଜୀଷ୍ଣଧିଗଭନ୍ତୁ କୋଡ଼ବେକୁ.
 ନିର୍ଧିଷ୍ଟ ବଳ ପରାବ ଲଠି ଜୀଏଗଭନ୍ତୁ ପତ୍ର ହଜ୍ଜୁଲୁ
¥AiiññAzA^a PA e^a AññApE a AAr , AññAzA M½AiiññAzA. Dzj AzA
 ନିର୍ଧିଷ୍ଟ ଜଂତୁନାଶକଗଭନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସିଯିଲ୍ଲ ବଳ ସଲୁ ସହକାରିଯାଗୁତ୍ତଦେ.
o KegMgjA^a PA© QAI UMA G¥A ¼KAzA a AññQù ñAqP^a PA
QAI EA±PUññE^a (a AññyAiiññAE^a, A<ÄyAiiññAE^a, E¥gj^a AiyE^a,
 ପେର୍ ମୁଦ୍ରିନା ଇତ୍ତାଦି) ବଳ ସବହାଦୁ. କୁ ଜୀଷ୍ଣଧିଗଭନ୍ତୁ
 ଏଷକାରିଯାଗିରୁଵୁଦରିଂଦ ବଳକେମୁ ସଂଦର୍ଭଦଲ୍ଲ ତଜ୍ଜ୍ଞର
PA AññE^a ¥A° 1 AññAzA ¥ññAññAtzA e^a AññAvE
 ଲୁପଯୋଗିନେବେକୁ. ପ୍ରମାଣ ହଜ୍ଜୁଦରେ କୋଣେଗଭନ୍ତୁ ଏଷମୁତେ
GAmAV AññAññE^a S^a AzA.

KPÁTÄ/D¢ fÄ«UkAZÄ GAMÄZÄ PÄQÄrAiÄÄ gÄEÄUPË
 અંમેરોલીયો, સલ્લા જૈષધિગળન્નુ નેરિનલ્લી અથવા મેચિનલ્લી
 ધÄqÄ ÄPÄ. eÄEVÜÉ «I «ÄEi-PÉ ધÄqÄ ÄzÄ AzÄ grÄ ÄPÉ ÄB
 vÄqÄiÄS° ÄzÄ. ÄAÄEiPÄ ÁV ધ±DØ ° ÄEACZÄ PÄE½UkUE ©
 «I «ÄEi ધÄqÄ ÄzÄ ÄrPÉ DzÄE xF«ÄEi CA±Ä ° ÄEACZÄ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିଯାତ୍ରକୁ ପ୍ରୁତ୍ତିଜ୍ଞେତିକଗଳଙ୍କୁ (ଅମାର୍କିସିଲିନ୍),
DAI¹° Ei, JEPA¹ YAPAI¹° Ei, 1 YEA¹ YAPAI¹ Ei, m̄ia Añnei,
DgEAA¹ Ei a Ávü m̄e EAA¹ Ei EvA¹) YEA¹ Ezglkvldg¹
P¹ A¹ a AgUÉ S¹/a Ázä. Dzjé F Ylwe¹ «PUKA¹ a EgAT¹
gEAA¹ tÄUM¹ eE¹ EvUÉ a BCA¹ A¹ U¹ a Ázä j Ai¹ A¹ U¹ a «g¹zä
o EAgAqAV¹ A¹ EAA¹ o EAgM¹ gEAA¹ P¹ Ag¹ PA¹ a EgAT¹ A¹ U¹ a «g¹zä¹
ଅଛ. ସ୍ଵେଚ୍ଛାତ୍ମକ ଏହାରୁ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ କେବଳ
C¹ C¹ wAg¹ zä Áj Ai¹ Ázä AZ¹ F P¹ - Ä - U¹ kUÉ S¹/a ÁU¹ a ÁC¹ ® e
eE¹ EvUÉ ÁC¹ a Ávü zä o Ázä a ± U¹ e ÁC¹ a Ag¹ PA¹ « I « ÁE¹ U¹ a
ଲବଣୀଂଶୁଗଳ ଜିକତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଖିବାକୁ ମରେଯାଦ, ରୋଗିଷ୍ଟୁ
P¹ E¹ U¹ M¹ E¹ B¹ DgEAA¹ PA¹ P¹ E¹ U¹ AZ¹ ÁY Dr¹ Ázä, M¹
P¹ E¹ U¹ M¹ E¹ B¹ 2AW¹ ÁV¹ KEP¹ j ÁwAi¹ e E¹ R¹ Z¹ e O E¹ V¹ Á¹
E¹ P¹ Á ÁQ¹ O ÁQ¹ Ái¹ ÁO¹ « - Á¹ Áj¹ a Áq¹ a Ázä C¹ E¹ PA¹
» ÁU¹ a Áq¹ a Ázä AZ¹ a zä gEAA¹ P¹ O EZ¹ O glq¹ zä AV¹
E¹ E¹ rP¹ ÁS¹ O Ázä P¹ E¹ d¹ P¹ A¹ Cw¹ a ÁR¹ a Ázä Á¹ Át¹ H¹



